

**DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL**  
**HALF YEARLY SYLLABUS 2024-25**  
**CLASS XI**

SNO.	SUBJECT	TOPIC
1.	<b>ENGLISH</b>	<b>Reading Skills</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unseen Passages</li> <li>• Note Making &amp; Summary</li> </ul> <b>Grammar- Integrated</b> <b>Writing Skills</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posters</li> <li>• Classified Advertisements</li> <li>• Debate Writing</li> <li>• Speech Writing</li> </ul> <b>Literature</b> (Hornbill) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L-1 The Portrait of a Lady</li> <li>• L- 2 We're not afraid to die...if we can all be together</li> <li>• L- 3 Discovering Tut: the saga continues</li> <li>• Poem: A Photograph</li> <li>• Poem: The Laburnum Top</li> </ul> (Snapshots) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L- 1 The Summer of the Beautiful White Horse</li> <li>• L-2 The Address</li> </ul>
2.	<b>PSYCHOLOGY:</b>	Chapter 1: What is Psychology? Chapter 2: Methods of Enquiry in Psychology Chapter 3: Human Development Chapter 4: Sensation, Attention and Perceptual Processes
3.	<b>POLITICAL SCIENCE</b>	Political Science Book 1 An Introduction to the Constitution Chapter 1 Constitution Chapter 2 Rights in the Indian Constitution Chapter 3 - Election System in India 4 Chapter 4 - Executive Chapter 5- Legislature Chapter 6- Judiciary Chapter 7- Federalism Chapter 8- Local Government Chapter 9- Our Constitution as a living Document Chapter 10 The Philosophy of Indian Constitution
4.	<b>GEOGRAPHY</b>	TEXT BOOK :1 Fundamentals of Physical Geography Chapter:1. Geography as a Discipline Chapter: 3. Interior of the Earth. Chapter: 4. Distribution of Continents and Oceans Chapter: 5. Geomorphic Processes Chapter: 6. Landforms and their Evolution. Chapter: 7. Composition and Stricture of Atmosphere. Map Activity: A. Major physical features: World Map. B. Physical Features: India (Political Map) Practical: 1. Longitude and Time calculations

		2. Types of Maps.
5.	HINDI	<p><u>अपठित बोध</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपठित गद्यांश</li> <li>2. अपठित काव्यांश</li> </ol> <p><u>लेखन</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अप्रत्याशित विषयों पर लेखन</li> <li>2. पत्र-लेखन</li> </ol> <p><u>अभिव्यक्ति और माध्यम</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जनसंचार</li> <li>2. संचार और उसके विभिन्न माध्यम</li> <li>3. डायरी लेखन</li> <li>4. कथा -पटकथा लेखन</li> <li>5. कार्यवृत्त</li> </ol> <p><u>साहित्य (आरोह )</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नमक का दरोगा</li> <li>2. मियाँ नसीरुद्दीन</li> <li>3. अप्पू के साथ ढाई साल</li> <li>4. विदाई संभाषण</li> <li>5. हम तो एक - एक करि जाना</li> <li>6. मेरे तो गिरधर गोपाल</li> <li>7. घर की याद</li> <li>8. गज़ल</li> <li>9. चंपा काले अच्छर नहीं चीन्हती</li> <li>10. हे भूख मत मचल ,मेरे जूही के फूल</li> </ol> <p><u>वितान</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ -लता मंगेशकर</li> <li>2. राजस्थान की रजत बूँदें</li> </ol>
6.	PHYSICAL EDUCATION	<p><b>CHAPTER 1-</b> Changing Trends and careers in Physical Education</p> <p><b>CHAPTER 2-</b> Olympism value education</p> <p><b>CHAPTER 3-Yoga</b></p> <p><b>CHAPTER 4-Physical Education and Sports for Children with Special Needs</b></p> <p><b>CHAPTER 5-</b> Physical fitness, Wellness and Lifestyle</p>
7.	PAINTING	<b>Composition</b>
8.	MUSIC	<p><b>1 brief of the following</b> Nada , shruti , swar , saptak , thaat , jati , laya , taal</p> <p><b>2 brief history of the following : dhrupad khayal tarana .</b></p> <p><b>3 : description of prescribed talas along with tala notiaons with thah and dugun : teentaal and chautaal</b></p> <p><b>4 : Introduction of the following ragas : bihag , bihag , bhimpalasi , and bhairavi practical</b></p> <p><b>5 : practical drut in raga bhimpalasi and bihag with simple elaboration .</b></p> <p><b>6 : Recitation of theka of teen taal and chau taal</b></p>

9.	<b>PHYSICS</b>	Ch 2: Units and Measurements Ch 3: Motion in a Straight line Ch 4: Motion in a Plane Ch 5: Laws of Motion Ch 6: Work, Energy and Power Ch 8: Gravitation.
10.	<b>CHEMISTRY</b>	Ch 1. Some Basic Concepts of Chemistry Ch 2. Structure of Atom Ch 3. Classification of Elements Ch 4. Chemical Bonding (till VSEPR Ch 7. Redox Reactions
11.	<b>MATHEMATICS</b>	Ch1.Sets Ch2.Relations and Functions Ch3.Trigonometric Functions Ch4.Complex Numbers Ch5.Linear Inequalities Ch6.Permutations and Combinations Ch7.Binomial Theorem Ch8. Sequences and Series
12.	<b>BIOLOGY</b>	CHAPTER 1 The Living World CHAPTER 2 Biological Classification CHAPTER 3 Plant Kingdom CHAPTER 4 Animal Kingdom CHAPTER 5 Morphology of Flowering plants CHAPTER 6 Anatomy of Flowering plants CHAPTER 8 Cell: The Unit of life CHAPTER 10 Cell cycle - till significance of Mitosis (page 195) *Revised edition
13.	<b>ACCOUNTANCY</b>	Ch.1 Introduction to Accounting Ch.2 Basic Accounting Terms Ch.3 Theory Base of Accounting, Accounting Standards and Ind-AS Ch.4 Bases of Accounting Ch.5 Accounting Equation Ch.6 Accounting Procedure-Rules of Debit and Credit Ch.7 Origin of Transactions-Source Documents and Preparation of Vouchers Ch.8 Journal Ch.9 Ledger
14.	<b>BUSINESS STUDIES</b>	Ch.1 Nature and Purpose of Business Ch.2 Forms of Business Organization Ch.3 Public, Private and Global Enterprises Ch.4 Business Services Ch.7 Formation of company
15.	<b>ECONOMICS</b>	<b>PART A: STATISTICS FOR ECONOMICS</b> UNIT 1: Introduction UNIT2:Collection,Organisation,Presentation ( except graphical presentation) <b>PART B: INTRODUCTORY MICROECONOMICS</b> UNIT 4: Introduction UNIT 5: Consumer's Equilibrium and Demand

<b>16.</b>	<b>COMPUTER SCIENCE</b>	1 COMPUTER SYSTEM & ORGANISATION 2 NUMBER CONVERSION 3 INRODUCTION TO PYTHON 4 SELECTION STATEMENT 5 LOOPS
<b>17.</b>	<b>INFORMATICS PRACTICES</b>	1 COMPUTER SYSTEM & ORGANISATION 2 INRODUCTION TO PYTHON 3 SELECTION STATEMENT 4 LOOPS